

उत्तराखण्ड शासन
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग
संख्या : /XIV-2/2021/01(05)/2017
देहरादून दिनांक 14 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

शासन द्वारा उपायुक्त, गन्ना एवं चीनी के रिक्त पद पर कार्यहित में श्रीमती हिमानी पाठक, सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून को अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त रूप से प्रभार दिये जाने का निर्णय लिया गया है

श्रीमती हिमानी पाठक, सहायक गन्ना आयुक्त को इस निमित्त कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते देय नहीं होंगे।

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या: 835 (i) / XIV-2 / 2021 / 01(05) / 2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड शुगर्स, देहरादून।
5. निजी सचिव, सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. मुख्य निजी सचिव, मा0 मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. श्रीमती हिमानी पाठक, सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि वे तत्काल उप गन्ना एवं चीनी आयुक्त का प्रभार ग्रहण करते हुए तदनुसार शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
8. समस्त सहायक गन्ना आयुक्त/सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र सिंह)
उप सचिव।